

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 414]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1969/पौष 10, 1891

मं० 414]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1969/PAUSA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st December 1969

S.O. 5061.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twenty-third Amendment Order, 1969.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part B, after sub-item No. 27(iv), the following sub-item shall be added:—

“(v) Foodgrain seeds including Wheat Seeds.”

(Issued from file No. 42/4/69-E, II.)

[No. E(C)O.1968/AM(41).]

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports & Exports.

(1537)

